



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15—नवम्बर 21, 2008 (कार्तिक 24, 1930)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15—NOVEMBER 21, 2008 (KARTIKA 24, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

सं. आर.एस./3/8(1)/2008/69-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत उप-निदेशक (सुरक्षा) श्री महिन्द्र सिंह को 11 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न से अगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600-39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 में 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन (अनंतिम) और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में स्थापना रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 3 नवम्बर 2008

सं. आर.एस./3/4(1)/2008/75-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्रीमती शेफाली गुप्ता, उप-निदेशक (पी एस एम) को 1 नवम्बर, 2008 से अगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर वेतन बैंड-3 में

15,600-39,100/- रुपये + ग्रेड वेतन 7,600/- रुपये (अनंतिम) और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक (पी एस एस) के ग्रेड में स्थापना रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आर.एस./3/1/2008/76-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत अधिशासी अधिकारी श्रीमती प्रेम खुराना को 1 नवम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से अगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर वेतन बैंड-3 में 15,600-39,100/- रुपये + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये (अनंतिम) तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक के ग्रेड में स्थापना रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अध्वर्धीन होगी।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 4 नवम्बर 2008

सं. आर.एस. 311/2008-77-कार्मिक- राज्य सभा के सचिवालय में कार्यरत सचिव सं. आर.एस. 311/2008-77-कार्मिक, दिनांक 30 अक्टूबर 2008 के अनुसार में, राज्य सभा के सचिवालय में इस सचिवालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सहायक। श्री रवि कान्त चौधरी (प्रतिनिधित्व) अधिनियम की 31 मार्च 2008 तक प्रकाशित है।

डी. जी. सिंह, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2008

सं. आर.एस. 311/2008-71-कार्मिक- राज्य सभा के सचिवालय में कार्यरत सचिव सं. आर.एस. 311/2008-71-कार्मिक, दिनांक 21 अक्टूबर 2008 के अनुसार में अगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 33,400-39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 - 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन (अंतिम) और नियमों के अंतर्गत स्वकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक के ग्रेड में निर्धारित आधार पर स्थापित रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. सं. आर.एस. 311/2008-71-कार्मिक के ग्रेड में बैंड में के एन. एस. बालिया से संबंधित है।

3. राज्य सभा के सचिवालय में कार्यरत सचिव सं. आर.एस. 311/2008-71-कार्मिक, दिनांक 21 अक्टूबर 2008 के अनुसार में अगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 33,400-39,100/- रुपये के वेतन बैंड-4 - 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन (अंतिम) और नियमों के अंतर्गत स्वकार्य सामान्य भत्तों के साथ निदेशक के ग्रेड में निर्धारित आधार पर स्थापित रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

4. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी।

डी. जी. सिंह, संयुक्त सचिव

सं. आर.एस. 311/2008-72-कार्मिक- राज्य सभा के सचिवालय में कार्यरत सचिव सं. आर.एस. 311/2008-72-कार्मिक, दिनांक 21 अक्टूबर 2008 के अनुसार में अगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600-39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 - 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन (अंतिम) और नियमों के अंतर्गत स्वकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक के ग्रेड में निर्धारित आधार पर स्थापित रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी।

डी. जी. सिंह, संयुक्त सचिव

सं. आर.एस. 311/2008-73-कार्मिक- राज्य सभा के सचिवालय में कार्यरत सचिव सं. आर.एस. 311/2008-73-कार्मिक, दिनांक 21 अक्टूबर 2008 के अनुसार में अगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600-39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 - 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन (अंतिम) और नियमों के अंतर्गत स्वकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक के ग्रेड में निर्धारित आधार पर स्थापित रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

श्री विजय कुमार को 21 अक्टूबर, 2008 के अनुसार में अगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600-39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 - 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन (अंतिम) और नियमों के अंतर्गत स्वकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक के ग्रेड में निर्धारित आधार पर स्थापित रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी।

डी. जी. सिंह, संयुक्त सचिव

सं. आर.एस. 311/2008-74-कार्मिक- श्रीमती ए. एस. चक्रवर्ती, जिन्हें पहले दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 आधुनिक सं. आर.एस. 311/2008-74-कार्मिक द्वारा नवंबर आधार पर विधायी/समिति/न्यायाधीश/अधीक्षक/अधीक्षक के रूप में स्थापित रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 27 अक्टूबर, 2008 के अनुसार में अगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में निर्धारित आधार पर नियुक्त किया गया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी।

डी. जी. सिंह, संयुक्त सचिव

बैजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर 2008

सं. ए-32025/9 अगामी आदेशों में-राष्ट्रपति, बैजना आयोग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (विशेष शिक्षा), मिस रेणु सोयनी को बैजना आयोग में वे वेतन बैंड 15,600-39,100 - 7,600/- (ग्रेड पे) में उप-सहायक (अध्यक्ष) के पद पर प्रोन्नति के आधार पर दिनांक 22.10.2008 से वा. अगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एन. वैजना अथर, अवर सचिव

दिल्ली एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2008

सं. ए-3801/2008 प्रशा. (वि. वि.)-यह खेद सहित अधिनियमित किया गया है कि श्री कटार सिंह बुधवार, अनुभाग अधिकारी, विधायी मंत्रालय विधि एवं न्याय मंत्रालय का दिनांक 23 अक्टूबर, 2008 तक नियुक्त हो गया है।

एन. आर. राव, उप सचिव

विधि एवं न्याय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2008

सं. ए-32012/2008-प्रशा. (वि. वि.)-राष्ट्रपति श्री कर्मा, के.

मंत्रालय में दिनांक 16 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न से छह महीने की अवधि के लिए अथवा पात्र अधिकारी के नियमित आधार पर नियुक्त होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 6,600/- रुपये ग्रेड वेतन सहित रु. 15,600-39,100/- के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा-ग्रेड-IV) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति के आधार पर वे सहायक विधि सलाहकार के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं कर सकेंगे और न ही तदर्थ आधार पर की गई उनकी इस सेवा की उच्चतर ग्रेड में वरिष्ठता के लिए गणना की जाएगी।

बी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

सं. ए-32012/1/2006-प्रशा.1 (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री बीरसिंह माझी, अधीक्षक (विधि) को विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में दिनांक 16 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न से छह महीने की अवधि के लिए अथवा पात्र अधिकारी के नियमित आधार पर नियुक्त होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 6,600/- रुपये ग्रेड वेतन सहित रु. 15,600-39,100/- के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा-ग्रेड-IV) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति के आधार पर वे सहायक विधि सलाहकार के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं कर सकेंगे और न ही तदर्थ आधार पर की गई उनकी इस सेवा की उच्चतर ग्रेड में वरिष्ठता के लिए गणना की जाएगी।

बी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

सं. ए-32012/1/2006-प्रशा.1 (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री बलवीर सिंह, अधीक्षक (विधि) को विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में दिनांक 16 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न से छह महीने की अवधि के लिए अथवा पात्र अधिकारी के नियमित आधार पर नियुक्त होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 6,600/- रुपये ग्रेड वेतन सहित रु. 15,600-39,100/- के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा-ग्रेड-IV) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति के आधार पर वे सहायक विधि सलाहकार के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं कर सकेंगे और न ही तदर्थ आधार पर की गई उनकी इस सेवा की उच्चतर ग्रेड में वरिष्ठता के लिए गणना की जाएगी।

बी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

दिनांक 31 अक्टूबर 2008

सं. ए-38012/5/2008-प्रशा.IV (वि.का.)--अधीक्षकता की आयु होने पर, श्री टी. के. विश्वनाथन, सचिव, विधि कार्य विभाग दिनांक

31 अक्टूबर, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

बी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 अक्टूबर 2008

सं. 14016/1/2008-यूटीएस-II--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली की पुलिस सेवा (दानिप्स) के प्रविष्टि ग्रेड में दो वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए 6,500-200-10,500/- रुपये के (संशोधन पूर्व) वेतनमान में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	रैंज संख्या	जन्म की तारीख
	(सर्वश्री)		
1.	गुरनाम सिंह	डी-1/705	05.06.1951
2.	योगेन्द्र कुमार	डी-1/271	14.08.1951
3.	प्रकाश लाल खेड़ा	डी-1/627	28.06.1951
4.	बाबू लाल	डी-1/677	10.06.1953
5.	राजपाल सिंह	डी-1/649	09.09.1951
6.	सुश्री कमल देवी मोणा	डी-1/587	20.02.1960
7.	तेजपाल सिंह	डी-1/28	14.12.1952
8.	पवन कुमार	डी-1/663	20.04.1953
9.	दयानन्द सिंह	डी-1/664	01.05.1952
10.	विजय कुमार	डी-1/909	03.03.1956

2. दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में ऊपर उल्लिखित दस अधिकारियों की नियुक्ति सीडब्ल्यूपी सं. 4210/2007-जगदीश चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली और सीडब्ल्यूपी सं. 11356-62/2006 जे. के. जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के परिणाम के अधधीन होगी।

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2008

सं. ए-19011/6/2008.अं.रा.प.(प्रशा.)--राष्ट्रपति, श्रीमती रेणुका जैन गुप्ता, भार.रा.से. (आई.टी. : 92) की अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय,

श्री अनिल एच. वेल्लिंगकर, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, मृत को दिनांक 12.11.2008 (अपराह) से स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति की नोटिस सहर्ष स्वीकार करते हैं।

अलोक अग्रवाल, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्टूबर 2008

सं. ए-19011/17/2008-प्रशा.-2--राष्ट्रपति, डॉ. आलोक शील, भा.प्र.से. (केरल : 82) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में दिनांक 23 अक्टूबर, 2008 के पुराह से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की पांच वर्ष की बर्ची हुई शेष अवधि अर्थात् 01.07.2012 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

सं. ए-12011/09/2006-प्रशा.-2--इस विभाग के दिनांक 11.07.2006, 24.07.2006, 28.07.2006, 22.08.2006, 31.10.2007, 06.08.2007 और 30.01.2008 की समयसमयक अधिसूचनाओं के क्रम में, राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) के आशुलिपिक ग्रेड 'सी' के निम्नलिखित आशुलिपिकों की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 9,300-34,800 + 4,800/- रुपये के संशोधित वेतन बैंड-2 में पूर्णतया तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 'ए' तथा 'बी' (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के ग्रेड में नियुक्ति को दिनांक 01.07.2008 से 31.12.2008 तक या नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

क्रम सं. अधिकारियों के नाम

1. श्रीमती रेखा गुप्ता
2. श्रीमती नीरजा जयारामन
3. श्रीमती संतोष मस्तोजा
4. श्रीमती रमा मूर्धनि
5. श्री जे. पी. रोहिल्ला
6. श्रीमती सुनीता वर्मा
7. श्रीमती कमलेश जुनेजा
8. श्रीमती सरला अजवादी
9. श्री योगेश कुमार
10. श्रीमती गंगा रानी
11. श्री राकेश के. सूर
12. श्रीमती लता रामचन्द्रन
13. श्रीमती नीलाक्षी

2. आशुलिपिक ग्रेड ए तथा बी (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(i) इस नियुक्ति से इन अधिकारियों को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने तथा सीएसएसएस के ग्रेड ए तथा बी (सम्मिलित) (निजी सचिव) में नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा;

(ii) इन तदर्थ नियुक्तियों को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2008

सं. पी.एफ.जी.(2220)प्रशा.1/2008--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की तदर्थ अनुभाग अधिकारी श्रीमती प्रवीण कपूर, सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-क के प्रावधान के तहत 01 अक्टूबर, 2008 की अपराह से सरकारी सेवा से स्वेच्छिक तौर पर सेवानिवृत्त होती हैं।

2. इसी तारीख से उनका नाम विभाग के पत्रक से काट दिया जाएगा।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 17 अक्टूबर 2008

सं. ए-12026/4/2008-प्रशा.1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के निम्नलिखित सहायकों को 17 सितम्बर, 2008 से प्रारम्भ में 31 दिसम्बर, 2008 तक अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर संशोधित वेतन बैंड 9,300-34,800 + 4,800/- रुपये (ग्रेड वेतन) में सी.एस.एस. के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति करते हैं :-

1. श्री प्रवीण चन्द्र शर्मा
2. श्रीमती विजय खारत

2. उपर्युक्त अधिकारियों को पूर्वोक्त अल्प-कालिक पदोन्नति उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का दावा प्रदान नहीं करेगा तथा इस ग्रेड में अल्प-कालिक आधार पर उनके द्वारा की गई सेवा को गणना अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु नहीं की जाएगी।

मीताली घोष, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

सं. ए-12011/3/2008-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.10.2008 के आदेश सं. 4/7/2008 सीएस.1(डी) के अनुसार

दिनांक 1 अक्टूबर 2008

सं. ए-01/23/2008-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, डॉ. लक्ष्मण प्रसाद, वैज्ञानिक 'जी' की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के लिए 30.09.2010 (अपराह्न) तक सहर्ष सेवा में बढ़ोतरी प्रदान करते हैं।

कृष्ण दत्त, अवर सचिव

दिनांक 10 अक्टूबर 2008

सं. ए-32011/01/2001-प्रशा.1(ए)--इस विभाग की दिनांक 31 मार्च, 2008 को समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डो.एस.डो.) - श्री धीरेन्द्र तिवारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक की 6,500-200-10,500/- रुपये (पूर्व-संशोधित) के वेतनमान में तदर्थ आधार पर कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी) के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 05.10.2008 से 04.01.2009 तक आगामी तीन महीने की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उसी ग्रेड में अनिश्चित काल तक जारी रहने अथवा निर्यामित नियुक्ति के लिए अथवा कनिष्ठ विश्लेषक के ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती।

कृष्ण दत्त, अवर सचिव
सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
के लिए और उनकी ओर से

दिनांक 13 अक्टूबर 2008

सं. ए 19014/07/2008-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, डॉ. (सुश्री) वन्दना सिंह (विकलांग) को 15,600-39,100/- रुपये के वेतनमान/वेतन बैंड (पोबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में तदर्थ आधार पर वैज्ञानिक 'सो' के रूप में 10.10.2008 (पूर्वाह्न) से अथवा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

कृष्ण दत्त, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 सितम्बर 2008

सं. 22012/16-1996-भा.व.से. II(पार्ट)- भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1996 के विनियम 7 के उपविनियम 3 में दिए गए प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 1995-96 के लिए उड़ीसा राज्य वन सेवा के अधिकारियों के भारतीय वन सेवा में पदोन्नति का चयन सूची की समीक्षा करने के लिए दिनांक 8 मई, 2008 को चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में तैयार की गई चयन सूची को संघ लोक सेवा आयोग ने अनुमोदित कर दिया है, जिसमें भारतीय वन सेवा के उड़ीसा संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति

रिक्तियों को भरने के लिए उड़ीसा राज्य वन सेवा के निम्नलिखित दो अधिकारियों के नाम शामिल हैं :--

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
1.	श्री एल. के. दास	17.07.1953
2.	श्री बी. एन. मोहंती	15.04.1951

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 अक्टूबर 2008

सं. ए-12025/20/2006-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. (श्रीमती) पूनम लाल को 15 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (प्रसूति तथा स्त्री रोग विज्ञान) के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

जी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 22 अक्टूबर 2008

सं. ए-12025/29/2006-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. राजेन्द्र कुमार मिश्र को 22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (विकिरण-निदान) के पद पर परीवीक्षा पर तैनात करते हैं।

जी. पी. राणा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

सं. ए-38013/03/2008-स्थापना-I--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात श्री एस. के. भारती अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितम्बर, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अरविंद कुमार, अवर सचिव

दिनांक 23 अक्टूबर 2008

सं. ए-22012/1/2008-स्थापना-III--कार्यालय आदेश संख्या 12016/2/एचएजी-13/08-09/2008-आईएसएस दिनांक 30.09.2008 के तहत डा. बी. के. मल्होत्रा को भारतीय सांख्यिकी सेवा के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड-II में 22,400-525-24,500/- रुपये (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार

से निर्वामद आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा चयन रोड में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

यह आधिसूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.11.2007 के का. जा. सं. 4/1/2007-सी.एस.1(डी) के अनुसरण में जारी की जाती है।

बी. डी. बरुआ, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अक्टूबर 2008

सं. पीएफ/23/एनआईसी/2008-प्रशा.1- -श्री दुर्गादास दत्ता, वैज्ञानिक "एफ" (कर्मचारी कोड सं. 23) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली में सरकारी सेवा से दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 की अपराह्न से अधिवर्षित पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

सी. बी. गणेशन, संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2008

सं. ए-32013/06/2007-ई-II- -राष्ट्रपति, श्री एस. एन. दास, जो केन्द्रीय इन्जीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के अधिकारी हैं और वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 06.10.2008 (पूर्वाह्न) से रुपये 37,400-67,000 + 10,000/- के वेतनमान में पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग में नियमित आधार पर मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. एस. राव, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 2008

सं. ए-32014/2/2000-प्रशा.1- -सोमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2003 के तहत सीएसएसएस के स्टेनो ग्रेड "ए" तथा "बी" (आमेहित) की चयन सूची वर्ष 2003 में शामिल होने और 19 अगस्त, 2008 के डीओपीटी के का. जा. सं. 5/15/2005-सी.एस.11 के तहत शहरी विकास मंत्रालय संवर्ग आर्थात् होने के परिणामस्वरूप सुश्री सीमा रस्तेगी, नियमित स्टेनो, ग्रेड "ए" तथा "बी" (आमेहित) ने टैरिफ कमिशन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 26.09.2008 के कार्यालय आदेश सं. ए-20011/1/98-प्रशा.(खंड-II) के तहत कार्यभार मुक्त किए जाने के पश्चात् इस संवर्ग में निजी सचिव के रूप में 26.09.2008 को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

यु. विश्वनाथम, अवर सचिव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 नवम्बर 2008

सं. डी.जी.ई.टी.-19/5/2006-सी.डी.- -श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) नई दिल्ली के दिनांक 21/24 अगस्त, 1956 के संकल्प संख्या टीआर/डीपी-24/56 के आंशिक संशोधन (24 अक्टूबर, 2007 तक संशोधित) में व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद पैर-5 (ड) में इसके आगे निम्न प्रकार संशोधन दिनांक 29 अक्टूबर, 2008 से किया जाता है।

(ड) निदेशक प्रशिक्षण (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय-सदस्य सचिव।

आर. के. अहलुवालिया, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 13th October 2008

No. RS.3/1/2008-69-Perl. - The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Maninder Singh, Deputy Director (Security) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Joint Director (Security) on Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 7600 (provisional) plus usual allowances admissible under the rules in that Secretariat with effect from the forenoon of 1st October, 2008, until further orders.

C. B. RAY, Jt. Dir.

The 3rd November 2008

No. RS.3/4/1/2008-78-Perl. - The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Seeta Chipla, Deputy Director (PSS) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate on regular basis in the grade of Joint Director (PSS) in Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 7600 (provisional) plus usual allowances admissible under the rules in that Secretariat with effect from 1st November, 2008 until further orders.

C. B. RAY, Jt. Dir.

No. RS.3/1/2008-70-Perl. - The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Prem Khurana, Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director on regular basis in the Pay Band-2 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600 (provisional) plus usual allowances admissible under the rules in that Secretariat with effect from the forenoon of 1st November, 2008, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

C. B. RAY, Jt. Dir.

The 4th November 2008

No. RS.3/1/2008-77-Perl. - In continuation of this Secretariat's Notification No. RS.3/1/2008-83-Perl dated 30th July, 2007, the Chairman, Rajya Sabha has been pleased to extend the term of deputation of Shri Ravi Kumar Gupta, Joint Secretary & Financial Adviser in this Secretariat upto 31st March, 2009.

C. B. RAY, Jt. Dir.

New Delhi-110001, the 29th October 2008

No. RS.3/1/2008-71-Perl. - The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Mohd. Khalid Khan, Joint Director in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Director in the Pay Band-4 of Rs. 37400-67000 plus

Grade Pay of Rs. 8700 (provisional) plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 21st September, 2007, until further orders.

2. Shri Mohd. Khalid Khan would rank senior to Shri N. S. Wallia in the grade of Director.

3. The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has also been pleased to appoint Shri Jitendra Girdhar Negi, Joint Director in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Director in the Pay Band of Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 8700 (provisional) plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 23rd September 2008, until further orders.

4. The above appointments would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

D. B. SINGH, Jt. Secy.

No. RS.3/1/2008-72-Perl. - The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Mangal Rai Verma, Deputy Director in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Joint Director on regular basis in the Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 7600 (provisional) plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 23rd September 2008, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

D. B. SINGH, Jt. Secy.

No. RS.3/1/2008-73-Perl. - The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Vijay Kumar, Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director on pro-forma basis in the Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 (provisional) plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 23rd September 2008, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

D. B. SINGH, Jt. Secy.

No. RS.3/1/2008-74-Perl. - Smt. A. S. Chakravarti, who was earlier appointed to officiate as Legislative Committee Protocol/Executive Officer on ad-hoc basis vide Notification No. RS.3(j/2007-13)-Perl. dated 31st December 2007, has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of 29th October, 2008, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

D. B. SINGH, Jr. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 22nd October 2008

No. A.12025/9/2007-Adm.I—The President is pleased to appoint Ms. Renu Sobti, Senior Research Officer (Science Education), Planning Commission as Deputy Adviser (Education) in the Planning Commission in the Pay Band of Rs. 15600-39100 + 7600 (Grade Pay) on regular promotion basis w.e.f. 22.10.2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATURE DEPARTMENT)

New Delhi, the 3rd November 2008

No. A.38013/1/2008-Adm.I(L.D.)—It is regretfully notified that Shri Katar Singh Budhwar, Section Officer, Legislative Department, Ministry of Law and Justice expired on 23rd October, 2008.

L. R. RAO, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 29th October 2008

No. A-32012/1/2006-Adm.I (LA)—The President is pleased to appoint Shri Y. K. Singh, Superintendent (Legal), to officiate as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of the Indian Legal Service) in the pay scale of Rs. 15,600-39100/- and Grade Pay Rs. 6600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, purely on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 16th October, 2008, for a period of six months or till an eligible officer is appointed on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Assistant Legal Adviser nor the services so rendered by him will count for the purpose of seniority in the higher grade.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

No. A-32012/1/2006-Adm.I (LA)—The President is pleased to appoint Shri Birsing Majhi, Superintendent (Legal), to officiate as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of the Indian Legal Service) in the pay scale of Rs. 15,600-39100/- and Grade Pay Rs. 6600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, purely on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 16th October, 2008, for a period of six months or till an eligible officer is appointed on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Assistant Legal Adviser nor the services so rendered by him will count for the purpose of seniority in the higher grade.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

No. A-32012/1/2006-Adm.I (LA)—The President is pleased to appoint Shri Balbir Singh, Superintendent (Legal), to officiate as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of the Indian Legal Service) in the pay scale of Rs. 15,600-39100/- and Grade Pay Rs. 6600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, purely on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 16th October, 2008, for a period of six months or till an eligible officer is appointed on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Assistant Legal Adviser nor the services so rendered by him will count for the purpose of seniority in the higher grade.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

The 31st October 2008

No. A-38012/5/2008-Adm.IV (LA)—On attaining the age of superannuation, Shri T. K. Viswanathan, Secretary, Department of Legal Affairs, stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2008.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 20th October 2008

No. 14016/1/2008-UTS-II—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised) on probation for a period of two years with immediate effect :—

Sl. No.	Name of the Officer	Range No.	Date of Birth
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Gurnam Singh	D-I/705	05.06.1951
2.	Yogender Kumar	D-I/271	14.08.1951
3.	Prakash Lal Khara	D-I/627	28.06.1951
4.	Babu Lal	D-I/677	10.06.1953

T	T^2	S	Z
5. Bapat Singh	04.649	0.00000000	
6. M. Kanchan Devi Meena	04.887	0.00000000	
7. Tej Pal Singh	04.128	0.00000000	
8. Pawan Kumar	04.000	0.00000000	
9. Dayanand Singh	04.004	0.00000000	
10. Anil Kumar	04.000	0.00000000	

2. The appointment of the above mentioned 7 (7) directors and Entry Grade Officers NPS would be subject to the approval of CWP No. 4210/2017 – English Channel Vessels and Fish Land and Air and CWP No. 4156/62/2016 (UK) and the Vessels, Oil & Gas in the Hon'ble High Court of Delhi.

$$i, k, \leq \text{Nth} - 1, \text{ for } i \neq k$$

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

Nov 14, 1944 - 29th October 1945

№ АС-1901/17-2008 (St. Adm.). The President of Russia appointed Mr. Ruzhnikov as a special representative of the State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs, with effect from the formation of 21st October 2015.

M. B. SAMUELSON, JR.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC RELATIONS &
PENSIONS

DEPARTMENTS OF PERSONNEL & TRAINING AND

New York: The New York State Bar Association, 1965.

No. 1501-515007 MSB). In exercise of the powers conferred by Rule 61 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the governments of Orissa and Madhya Pradesh, the Central Government hereby gives its approval for the early cadre reputation of Shri N. Ramchandra Banadhar Singh B.A., 1958 (OR 99) from the IAS cadre of Orissa to the IAS cadre of Madhya Pradesh on a period of three years with effect from 1.1.1961.

11. <http://www.oxfordjournals.org>

No. 1301733-2014-18-1. In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Jammu and Uttarakhand, the Central Government hereby transfers Shri Akshat Gupta, IAS (old 2806) from the IAS cadre of Jharkhand to the IAS cadre of Uttarakhand on the ground of marriage to Shri. Rishabh Aggarwal, IAS (batch 2005) Uttarakhand.

Y. K. MEER, D. S. SINGH

New issue: 15th February 2005

No. A-32013/5-2009-AD-1411. Consistent upon inclusion of his name in the Selection List of the Selection Grade of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2002, vide Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 44/2007-CSS (I/D) dated 7th November, 2007, the President is pleased to appoint Shri Rajeshwar Deyal, a Grade-I Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on a time basis with effect from 1.07.2002.

P. K. MISRA, *Editor Secy.*

June 28, October 2019

No. 20 S/540-Ad-I is issued consequent upon inclusion of their names in the new List of Senior Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service in pursuance to DP&T/CA No. 5/18/2005-CS.II dated the 12th August, 2008, the President is pleased to appoint the following Senior Principal Private Secretaries (ad-hoc) in the Cadre of Ministry of Personnel, P.G. & Pensions as regular Senior Principal Private Secretaries at the revised pay structure of PB-2 Rs. 15600—39100 plus 10% Dearness Allowance.

S.No.	Name	Select List
1.	Sh. G. Yesodharan	2005
2.	Sh. P. Divyashree	2000

P. K. MISHRA, Under Secy.

MINISTER OF FINANCE

No. 51 of 2008 (F. No. A-38012/36/2008-Ad.II)– The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri Anil H. Velingkar, Assistant Commissioner, Central Excise & Customs, Surat with effect from 12.11.2008 (AN) under Rule 48(1) of the CCS (Pension) Rules, 1972.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 23rd October 2008

No. A-19011-17/2008-Adm.II—The President is pleased to appoint Dr. Alok Sheel, IAS (KL:82), as Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 23rd October 2008 for the balance period of his central deputation of five years i.e. upto 1.7.2012 or until further orders, whichever is earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

No. A-12011-09/2006-Adm.II—In continuation of this Department's notifications of even number dated the 11.07.2006, 24.07.2006, 28.07.2006, 22.08.2006, 31.01.2007, 06.08.2007 and 30.01.2008, the President is pleased to extend the appointment of the following Stenographers Grade 'C' of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) of Finance Cadre, to the grade of Stenographer Grade A&B (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) in the Revised Pay Band -2 of Rs. 9300-34800+4800/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis w.e.f. 01.07.2008 to 31.12.2008 or till regular officers become available or until further orders, whichever is earlier :—

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Smt. Rekha Gupta | 2. Smt. Neerja Jayaraman. |
| 3. Smt. Santosh Malhotra | 4. Smt. Rana Murthy |
| 5. Shri J. P. Rohilla | 6. Smt. Sunita Verma |
| 7. Smt. Kamlesh Juneja | 8. Smt. Sarla Ajbani |
| 9. Shri Yogesh Kumar | 10. Smt. Rita Rani |
| 11. Shri Rakesh K Sood | 12. Smt. Latha Ramachandran |
| 13. Smt. Neelaxi. | |

2. The ad-hoc appointments of the above Stenographers Grade 'C' as Stenographer Grade 'A&B' (merged) (designated as PS) will be subject to the following terms and conditions :—

- The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A&B' (merged) (P.S.) of CSSS;
- Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 3rd October 2008

No. PFG(2220) Adm.I/2008—Smt. Praveen Kapoor, an ad-hoc Section Officer of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired voluntarily from Government Service under the provision of the Rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, 1972 with effect from the forenoon of 1st October, 2008.

2. Her name will be struck off from the rolls of this Department from that date.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 17th October 2008

No. A-12026/4/2008-Ad.I—The President is pleased to appoint the following Assistants of CSS to the grade of Section Officer of the CSS in the Revised Pay Band of Rs. 9300—34800/- + Rs. 4800/- (Grade Pay) on purely ad-hoc basis w.e.f. 17th September, 2008 initially upto 31st December, 2008 or till regular incumbent becomes available or till further orders, whichever is earlier :—

- Shri Praveen Chander Sharma
- Smt. Vijay Kharat

2. The aforesaid short-term promotion of the above named officers will not bestow on them any claim for regular appointment and services rendered by them on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 8th October 2008

No. A-12011/3/2008-Ad.I—In pursuance to Department of Personnel and Training Order No. 4/7/2008-CS.I(D) dated 03.10.08, Ms. Bina Rani Vij has assumed the charge of the post of Deputy Secretary of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. the forenoon of 8.10.2008 until further orders.

R. C. TULLY, Under Secy.

The 13rd October 2008

No. PFG (954)/08-Ad.I—In pursuance to Department of Economic Affairs Order No. 13016/2/2008-IES dated 31.07.2008, Shri Radhey Shyam, a JAG level Officer of Indian Economic Service (IES), has assumed the charge of the post of Director in the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. the forenoon of 22.09.2008.

R. C. TULLY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

DEPARTMENT OF COMMERCE

New Delhi, the 15th September 2008

No. 27/2008-Adm (DTE-2006) (1) - The President is pleased to appoint Shri Rahul Khullar, IAS (1981-1984), presently Additional Secretary in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce as Special Secretary in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce by temporarily upgrading the post of J. by him with effect from the forenoon of 12th September, 2008 until further orders.

Dr. R. K. MITRA, D.O.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 16th October 2008

No. 02/4-1/2008-Adm (A) - In pursuance of No. 1/2008-Adm (A) dated 25th June, 2008, the President is pleased to appoint Shri Raj Kumar Bharti, Assistant Secretary (1994) (SSN), No. 4151, as Additional Secretary in the Ministry of Coal to the Section Officer's charge of the Ministry of Coal, in the pay scale of Rs. 9,000-13,500/- + Rs. 4800/- (PB-2) with effect from the forenoon of 16th October, 2008 upto 31st December, 2008 or till regular Section Officers become available whichever is earlier.

2. The above appointment is being made purely on ad-hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Seniority list for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade of the CSS. The Government reserves the right to terminate the above ad-hoc appointment at any point of time without giving any reasons therefore.

CHANDRASHI KHAR, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

New Delhi, the 1st October 2008

No. A/2008-17/2008-1 (1) - The President is pleased to appoint Shri Lalit Mohan Kumar, Assistant Professor in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi, as Section Officer on regular basis in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi.

Singh Virk and Abhis Kumar Dwivedi, Senior Technical Assistants (STAs) in the Dept. of Quality Assurance (Quality), Ministry of Defence, New Delhi as Junior Analyst (Technical) in the pay scale of Rs. 18,000-20,000-10,500/- in the Department of Science & Technology on deputation basis for a period of one year with effect from 17.09.2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

2. The terms and conditions of their appointment will be in accordance with the Department of Personnel & Training's OM No. 2/29/91-1 (1) (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

KRISHNADU, P., Under Secy.
for and on behalf of Secretary, DST

New Delhi, 19th September 2008

No. A/01/32/2007-Adm (A) - In partial modification of the Notification of No. number dated 26.10.2007 the President is pleased to appoint Brig (D) R. Siva Kumar, Director (NSDI), Survey of India, R. K. Puram, New Delhi as Protem Chief Executive Officer, National Spatial Data Infrastructure in the Department of Science and Technology carrying the scale of pay of Rs. 18,400-20,000-22,400 on deputation basis with effect from 18th October, 2007 (FN) for a period of one year or until further orders, whichever is earlier. Consequently upon his having opted to draw pay in the scale of pay of Rs. 16,700-4200-18,050/- in his parent cadre, his appointment will be governed in accordance with the instructions contained in the Ministry of Defence's Letters No. 131/187 (D/Pay Services) dated 25.06.1987 and 126/97 VIII (D/Pay Services) dated 29.02.2000 as amended from time to time.

KRISHNADU, P., Under Secy.

New Delhi, 1st October 2008

No. A/01/27/2008-Adm (A) - The President is pleased to grant extension of service to Dr. Taxman Prasad, Scientist 'G' in the scale of pay of Rs. 18,400-5000-22,400/- in the Department of Science & Technology for a period of two years beyond the date of his superannuation, i.e. up to 30.09.2010 (AN).

KRISHNADU, P., Under Secy.

2. The ad-hoc appointment will not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for regular appointment or to claim seniority in the grade of Junior Analyst

KRISHNA DUTT, Under Secy.
for and on behalf of Secretary, DST

The 13th October 2008

No. A. 19014/07.08-Admn.I(A).—The President is pleased to appoint Dr. (Ms.) Vandana Singh (OH) as Scientist 'C' in the Pay Band/Scale of Rs. 15600-39100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 6600/- w.e.f. 10.10.2008 (FN) on ad-hoc basis in the Department of Science & Technology or until further orders.

KRISHNA DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 18th September 2008

No. 22012/16/1996-IFS.II(Part).—In exercise of the provisions contained in sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for review of Select List for promotion from the State Forest Service of Orissa to the Indian Forest Service for the year 1995-1996 was held on 8th May, 2008. The Union Public Service Commission has approved the Select List prepared in the said meeting containing the names of the following two members of the State Forest Service of Orissa towards filling up of promotion vacancies available in Orissa cadre of the Indian Forest Service :—

S.No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Sh. L. K. Dash	17.07.1953
2.	Sh. B. N. Mohanty	15.04.1951

C. M. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st October 2008

No. A. 12025/26/2006-CHS.(V).—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr.(Smt.) Poonam Lall to the post of Specialist Grade II (Obst. & Gynae.) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service on probation w.e.f. the forenoon of the 15th February, 2007 until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 22nd October 2008

No. A. 12025/29/2006-CHS.(V).—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rajinder Kumar Mishra to the post of

Specialist Grade-II (Radio-Diagnosis) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service on probation w.e.f. the forenoon of the 22nd May, 2007 until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 1st October 2008

No. A. 38013/03/2008-Estt.I.—On attaining the age of superannuation, Shri S. K. Bharti, an officer of the CSS and posted as Section Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, has retired from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2008.

ARVIND KUMAR, Under Secy.

The 23rd October 2008

No. A. 22012/1/2008-Estt.III.—Consequent upon his promotion to the Higher Administrative Grade-II of the Indian Statistical Service in the scale of Rs. 22,400-525-24500/- (pre-revised) vide Office Order No. 12016/2/HAG-II/08-09/2008-ISS dated 30.09.2008 Dr. V. K. Malhotra has assumed charge of the post of Additional Director General (Statistics) in the Department of Health & Family Welfare with effect from 03.10.2008 (FN).

ARVIND KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 14th October 2008

No. A. 12034/3/2002-PH(Food)/DFQC.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Geetanjali Technical Supervisor, Central Research Institute, Kasauli to the post of Microbiologist on direct recruitment basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- (pre-revised) (Group 'A' Gazetted) plus admissible allowances in Central Food Laboratory, Kolkata in a temporary capacity with effect from the forenoon of 6th October, 2008 and until further orders.

2. Dr. Geetanjali, Microbiologist will be on probation for a period of two years.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 17th October 2008

No. 19011/311/92-E.V/E.II.—On attaining the age of superannuation, Shri R. M. Pandey, Scheme Officer (Plant Protection Division), in the Department of Agriculture & Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2008.

A. K. ARORA, Under Secy.

FISHERY SURVEY OF INDIA**(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES
AND FISHERIES)**

Mumbai, the 29th October 2008

No. 2-8 2007-1 (1) — The undersigned as the Appointing Authority is pleased to promote Shri B. Sathish Kumar, Superintendent (P.S.C.) to the post of Assistant Engineer (Workshop) (Central Civil Service Group (B) (Unaided Non-Ministerial) in Fishery Survey of India in the P.O. No. 4 (PB-2) of Rs. 9,700-34,800 (plus Grade Pay of Rs. 4200/-) corresponding to the prescribed pay scale of Rs. 6500-200-10700/- on regular basis with effect from 01.08.2008 P.N.

He will be on probation for a period of one year w.e.f. 01.08.2008.

Dr. V. S. SOMYAN SRI, Dir. Gen.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & HIGHER)**

New Delhi, the 22nd September 2008

No. F.36-13 2007-A.1.6 — Consequent upon the recommendation of the Departmental Promotion Committee (DPC), the President of India is pleased to appoint Shri S. K. Watal, Assistant Director, Directorate of Adult Education, Jam Nagar House, New Delhi as Deputy Director on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-32,815-200/- in the Directorate of Adult Education, New Delhi with immediate effect for a period of one year or till a regular incumbent recommended by UPSC joins the post or till further orders whichever is earlier.

S. K. GHILL, Under Secy.

No. F.36-13 2007-A.1.6 — Consequent upon the recommendation of the Departmental Promotion Committee (DPC), the President of India is pleased to appoint Shri Rajpal Singh, Assistant Director, Directorate of Adult Education, Jam Nagar House, New Delhi as Deputy Director on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-32,815-200/- in the Directorate of Adult Education, New Delhi with immediate effect till the date of his superannuation or 31.03.2009 or till a regular incumbent recommended by UPSC joins the post or till further orders whichever is earlier.

S. K. GHILL, Under Secy.

No. F.36-13 2007-A.1.6 — Consequent upon the recommendation of the Departmental Promotion Committee (DPC), the President of India is pleased to appoint Shri Prakash, Assistant Director, Directorate of Adult Education, Jam Nagar House, New Delhi as Deputy Director on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-32,815-200/- in the Directorate of Adult Education, New Delhi with immediate effect till further orders.

S. K. GHILL, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 20th August 2008

No. A-19011-2008-1st-II — In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer) Office Memorandum No. 4-5 2008-EO/MM-I dated 16th June, 2008, Shri Pravin L. Agrawal, IAS (MT-94) has assumed the charge of Deputy Secretary in the Ministry of Culture w.e.f. the forenoon of 31st July, 2008 for a period up to 30.02.2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi, the 03rd, the 4th November 2008

No. A-22012-0200-Est — Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2002, the President is pleased to appoint Shri Vinodha Singh, regular Grade-II Officer of the Central Secretariat Service in the Selection Grade of Deputy Secretary of CSS on regular basis, with effect from 01.07.2002.

This issues in pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 4-1 2007-CS.I(D) dated 7th November, 2007.

B. D. BARUA, Under Secy.

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION
TECHNOLOGY****(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)****NATIONAL INFORMATICS CENTRE**

New Delhi, the 31st October 2008

No. PF-23 NH, 2008 Adm-I — Shri Durgadas Datta, Scientist "F" (P.O. No. 23), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st October, 2008 and he stands relieved of his duties from the same day.

C. V. GANESAN, Jt. Dir. (Adm.)

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &
HIGHWAYS****(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)**

New Delhi, the 21st October 2008

No. A-32013-06207-1-I-II — The President is pleased to appoint Shri S. N. Das, Superintending Engineer (Mechanical) of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' as Chief Engineer (Mechanical) on regular basis in the pay scale of Rs. 37400-67000/- (G.P.) in the Department of Road Transport & Highways, New Delhi with effect from 06.10.2008, until further orders.

K. S. RAO, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 15th October 2008

No. A-32014 2/2009-Admn-I.—Consequent upon her inclusion in the Select List Year 2003 of Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS against Limited Departmental Competitive Examination-2003 and allocation to the cadre of Ministry of Urban Development vide DOPT's OM 5/15/2005-CS-II dated 19th August, 2008 Ms. Seema Rustagi a regular Steno Gr. 'A&B' (Merged) has joined this cadre as Private Secretary with effect from the forenoon of 26.09.2008 after her release by the Tariff Commission, Ministry of Commerce and Industry vide their Office Order No. A-20011/1-98-Admn (Vol. II) dated 26.09.2008.

U. VISWANADHAM, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT & TRAINING

New Delhi, the 3rd November 2008

No. DGE&T-19(5)/2006-CD.—In partial modification of Ministry of Labour & Employment Directorate General of Employment & Training, New Delhi Resolution No. TR/EP-24/56 dated 21st/24th August, 1956 (Amended upto 24th October 2007) the composition of the National Council for Vocational Training para 5 (n) shall hereinafter stand amended w.e.f. 29th October 2008 as under :

(n) The Director of Training (DGE&T), Ministry of Labour & Employment, New Delhi.—Member Secretary.

R. K. AHLUWALIA, Under Secy.